

क्या मुझे कोई दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होगी ?
आपकी पालता के आधार पर आपको दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। नीचे दी गई प्रत्येक श्रेणी से एक दस्तावेज प्रदान करने के लिए तैयार रहें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर रहे हैं, तो कृपया उन्हें अपने साथ लाएं। यदि आप फोन पर आवेदन कर रहे हैं, तो आपको उन्हें MyChart पर अपलोड करने या आपकी अपॉइंटमेंट के दौरान उन्हें प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। यदि आपके पास कुछ दस्तावेज नहीं हैं, तो चिंता न करें! हम अभी भी मदद कर सकते हैं।

दस्तावेज श्रेणी	स्वीकार्य दस्तावेज के उदाहरण
पहचान का प्रमाण	डाइविंग लाइसेंस या गैर-चालक पहचान पत्र, NYC पहचान पत्र, पासपोर्ट, विदेशी पहचान पत्र, ग्रीन कार्ड या कार्य अनुज्ञा-पत्र, प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र, बीजा, स्कूल पहचान पत्र, विवाह प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, EBT या CBIC कार्ड
आय का प्रमाण	पे स्टब्स (अंतिम 4 सप्ताह), रोजगार पत्र, निवृत्ति वेतन/SSI/ बेरोजगार सहायता पत्र /चेक
निवास प्रमाण पत्र	पोस्टमार्क किए गए लिफाफे, उपयोगिता बिल (पिछले 90 दिन), किराया करारनामा, मॉर्टगेज विवरण
बीमा पालता निर्धारण	यदि आपकी पहले से ही किसी अन्य संस्था के सहायक द्वारा या New York State of Health Marketplace (New York राज्य हेल्थ मार्केट प्लेस) के माध्यम से आपके खुद के द्वारा बीमा पालता के लिए स्क्रीनिंग की गई है, तो निर्धारण की एक नकल साझा करें

जब मैं अपने स्वास्थ्य बीमा कवरेज के बारे में सुनने का इंतजार कर रहा हूँ, अगर उस बीच मुझे कोई बिल मिलता है तो क्या होगा ?
यदि आपने स्वास्थ्य बीमा के लिए आवेदन किया है, तो जब तक आपके आवेदन की समीक्षा की जा रही है, आपसे किसी बिल का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यदि आपको कोई बिल मिलता है, तो आपको हम से संपर्क करना चाहिए और वित्तीय परामर्शदाता से बात करने के लिए कहना चाहिए जो आपकी मदद करेगा।

मैं आवेदन कैसे कर सकता हूँ ?
हमारे वित्तीय परामर्शदाता आपको स्वास्थ्य बीमा कवरेज या वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय सलाहगार से बात करने के लिए 1-844-692-4692 पर कॉल करें और विकल्प 3 चुनें।

NYC Health + Hospitals सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। हम अप्रलेखित लोगों सहित सभी रोगियों के अधिकारों और उनकी निजता का सम्मान करते हैं। हम अंग्रेजी भाषा न बोलने वाले लोगों को डॉक्टरों और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ बात-चीत करने में भी मदद करते हैं। हमारे कर्मचारी अल्बानियाई, अरबी, बंगाली, चीनी, फ्रेंच, हवाईयान् क्रियोल, हिंदी, कोरियाई, पोलिश, रूसी, स्पेनिश और उर्दू सहित कई भाषाएं बोलते हैं। दुभाषिया सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आप अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


अधिक जानने
और नामांकन कराने के लिए
1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273 पर कॉल करें
nycicare.nyc



संपर्क में रहें। हमें फॉलो करें।

NYC HEALTH + HOSPITALS

वित्तीय सहायता



कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है?

चिंता मत करें, हम आपकी मदद कर सकते हैं।

आपको उच्च गुणवत्ता वाली एवं सस्ती स्वास्थ्य देखभाल पाने का अधिकार है। उस देखभाल को किफायती बनाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वास्थ्य बीमा में नामांकन करना। हम आपके लिए उपलब्ध विकल्पों को समझाने में सहायता कर सकते हैं तथा आप और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छी योजना में नामांकन कराने में मदद कर सकते हैं। यदि आप उपलब्ध किसी भी निशुल्क या कम लागत वाली स्वास्थ्य बीमा योजना की अर्हता प्राप्त नहीं हैं या इनका खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो आप हमारे वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में से एक — *NYC Care या Options* — के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप हमारी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को आपके और आपके परिवार के लिए सस्ती बना सकें।

मैं उपलब्ध विकल्पों के बारे में कैसे पता करूँ?

NYC Health + Hospitals के वित्तीय परामर्शदाता से बात करें जो अगर आप योग्य हैं तो आप और आपके परिवार को मुफ्त या कम लागत वाले स्वास्थ्य बीमा में नामांकन कराने में मदद कर सकता है। हमारे वित्तीय परामर्शदाता यहाँ विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से, जिनके लिए आप पाल हो सकते हैं, चुनने में आपकी सहायता करने के लिए हैं। यदि आप किसी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पाल नहीं हैं, बीमा कवरेज का खर्च नहीं उठा सकते हैं, या चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप हमारे वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में से एक के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

NYC Care उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो स्वास्थ्य बीमा के लिए अयोग्य हैं या उसका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं और वे छह या इससे अधिक महीनों तक न्यूयॉर्क शहर में रहे हैं।

Options उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो स्वास्थ्य बीमा के लिए अयोग्य हैं या उसका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं और वे न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं या उसकी याता पर जाते हैं।

Options उन लोगों की मदद करता है जो Nassau काउंटी में रहते हैं या उसकी याता पर जाते हैं और Queens में स्थित हमारे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग करते हैं। *Options* उन लोगों की भी मदद करता है जो Westchester काउंटी में रहते हैं या उसकी याता पर जाते हैं और Bronx में स्थित हमारे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का उपयोग करते हैं।

स्वास्थ्य बीमा क्यों महत्वपूर्ण है?

किसी को घायल होना या बीमार होना पसंद नहीं होता है, लेकिन अप्रत्याशित चिकित्सकीय घटनाएँ फिर भी घटित हो जाती हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना होने से उन कुछ अप्रत्याशित लागतों का भुगतान करने में मदद मिलती है, जिनमें चल रहे बड़े मेडिकल बिल और डॉक्टर के पर्चों पर लिखी दवाएँ शामिल हैं, और इससे आपको मानसिक शांति मिल सकती है। हम यह भी जानते हैं कि जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा होता है उनको खुद को और उनके परिवार को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक निवारक देखभाल प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है।

मुझे कितना भुगतान करना होगा?

अनेक मुफ्त या कम लागत वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं। हम आपके साथ उन विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य बीमा के लिए पाल नहीं हैं और वित्तीय सहायता के लिए योग्य हैं, तो आप केवल उतना ही भुगतान करते हैं जितना आप वहन कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर दिया गया चार्ट दिखाता है कि हमारे वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में से किसी एक के तहत आपको कितना भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। डॉक्टर को दिखाने के लिए आपसे लिया जाने वाला शुल्क \$0 तक कम हो सकता है।

आवेदन करने के लिए मुझे किन चीजों की आवश्यकता है?

आपसे अपने खुद और अपने परिवार और आपकी आय के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जाएगा। हम आपको कई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में से जिनके लिए आप पाल हो सकते हैं, उसे चुनने में मदद करेंगे। यह एक सुरक्षित एप्लिकेशन है और कोई भी जानकारी आत्रजन अधिकारियों के साथ साझा नहीं की जाती है।

चरण 1:

अपने परिवार के आकार का पता लगाएं (कृपया सभी वयस्कों और बच्चों को शामिल करें जो आपके साथ रहते हैं)।

चरण 2:

इसके बाद, उन स्तरों में से किसी एक में एक वर्ष में भुगतान की जाने वाली राशि का पता लगाएं।

चरण 3:

यह पता लगाने के लिए कि आपको अपने परिवार के आकार और आय के अनुसार क्लिनिक विजिट, आपातकालीन कक्ष विजिट और अस्पताल में भर्ती के लिए कितना भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम को देखें।

संघीय गरीबी स्तर	100% FPL	101 - 125% FPL		126 - 150% FPL		151 - 200% FPL		201 - 250% FPL		251 - 300% FPL		301 - 350% FPL		351 - 500% FPL	
परिवार का आकार	निम्न से कम	निम्न से अधिक	निम्न से कम	निम्न से अधिक	निम्न से कम	निम्न से अधिक	निम्न से कम	निम्न से अधिक	निम्न से कम	निम्न से अधिक	निम्न से कम	निम्न से अधिक	निम्न से कम	निम्न से अधिक	निम्न से कम
1	12 880	12 881	16 100	16 101	19 320	19 321	25 760	25 761	32 200	32 201	38 640	38 641	45 080	45 081	64 400
2	17 420	17 421	21 775	21 776	26 130	26 131	34 840	34 841	43 550	43 551	52 260	52 261	60 970	60 971	87 100
3	21 960	21 961	27 450	27 451	32 940	32 941	43 920	43 921	54 900	54 901	65 880	65 881	76 860	76 861	109 800
4	26 500	26 501	33 125	33 126	39 750	39 751	53 000	53 001	66 250	66 251	79 500	79 501	92 750	92 751	132 500
5	31 040	31 041	38 800	38 801	46 560	46 561	62 080	62 081	77 600	77 601	93 120	93 121	108 640	108 641	155 200
6	35 580	35 581	44 475	44 476	53 370	53 371	71 160	71 161	88 950	88 951	106 740	106 741	124 530	124 531	177 900
7	40 120	40 121	50 150	50 151	60 180	60 181	80 240	80 241	100 300	100 301	120 360	120 361	140 420	140 421	200 600

वयस्क के लिए क्लिनिक विजिट	\$0	\$2	\$3	\$20	\$30	\$40	\$50	\$50
बच्चे या गर्भवती महिला के लिए क्लिनिक विजिट	\$0	\$0	\$0	\$20	\$30	\$40	\$50	\$50
व्यवहार स्वास्थ्य क्लिनिक विजिट	\$0	\$0	\$0	\$15	\$30	\$40	\$50	\$50
वयस्क के लिए आपातकालीन कक्ष विजिट	\$0	\$3	\$3	\$75	\$80	\$100	\$120	\$120
बच्चे या गर्भवती महिला के लिए आपातकालीन कक्ष विजिट	\$0	\$0	\$0	\$75	\$80	\$100	\$120	\$120
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स (प्रति प्रिस्क्रिप्शन शुल्क)	\$2	\$2	\$2	\$6	\$10	\$14	\$18	\$18
औषधालय की सर्जरी या MRI परीक्षण	\$0	\$15	\$25	\$150	\$300	\$450	\$550	\$650
आंतरिक रोगी का अस्पताल में ठहराव*	\$0	\$25	\$25	\$150	\$400	\$900	\$1500	\$1500
सह-भुगतान और कटौती राशि	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10	\$12	\$18	\$22

जिन मरीजों की पारिवारिक आय उपरोक्त से अधिक है उनसे शुल्क NYC Health + Hospitals सेल्फ़े रेट के आधार पर लिया जाएगा।

*यदि बचत \$8,000 से अधिक है तो अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है।